



CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)



● Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
● Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

5.1.1 Policy for scholarships /free ships/fee waivers by Government/non-governmental agencies/Institution

INDEX

S. No	Title	Page no
1	Policy for Government Scholarship (SC/ST/OBC/Minority)	1-11
2	Policy for Scholarship by free ship /fee waivers by the institution	12-15
3	Revised: Policy for Scholarship by free ship /fee waivers by the institution	16-18



CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)



- Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
- Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

THE MADHYA PRADESH AWARD OF SCHOLARSHIPS (FREE FLYING-TRAINING) RULES, 1973

Government policy





CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)



● Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
● Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

THE MADHYA PRADESH AWARD OF SCHOLARSHIPS (FREE FLYING-TRAINING) RULES, 1973

CONTENTS

Rules

1. Short title
2. Scope.
3. Minimum Qualification.
4. Value of Scholarships
5. Number of Scholarships.
6. Liability of Candidates.
7. Selection Committee.
8. Select Lists.
9. Approval of State Government.
10. Physical fitness.
11. Duration of Training.
12. Mode of payment of Scholarships.
13. Selected candidates to be subjected to rule of the Club
14. Termination of Scholarship
15. Liability of candidate on withdrawal of scholarship
16. State Government not liable for any accident, etc.
17. Candidates to execute agreements





CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)



● Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
● Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

THE MADHYA PRADESH AWARD OF SCHOLARSHIPS (FREE-FLYING TRAINING) RULES, 1973

The State Government hereby makes the following rules for the award of Scholarships for free flying training at the bases/branches of flying clubs in the State of Madhya Pradesh, namely

1. Short title.- These rules may be called The Madhya Pradesh Award of Scholarships (Free-Flying Training) Rules, 1973.

2. Scope.- These rules shall govern award of scholarships for free flying training at the bases/branches of flying clubs in the State of Madhya Pradesh.

3. Minimum Qualification.- Only those candidates shall be eligible for award of scholarships

(i) Who are the permanent residents of Madhya Pradesh.

Explanation.- Permanent resident, for the purposes of these rules means a person who is so classified in accordance with Government orders issued in this behalf, from time to time;

(ii) Who are not below 17 years and have not completed 22 years of age on the first day of January of the year for which scholarship is being awarded for the first time;

(iii) Who have not completed sixty hours of flying prior to the award of scholarships;

(iv) Who have passed at least the Higher Secondary Examination or an examination equivalent thereto;

(v) The total income of whose parents/guardian does not exceed Rs. 12,000 per annum, and produce a certificate to that effect from the District Magistrate of the District of his residence.

4. Value of Scholarships.- Each Scholarship shall be of the value of Rs. 28 per flying hour and shall be limited to sixty hours per candidate.

5. Number of Scholarships.- The number of Scholarships to be awarded in any financial year shall, from time to time, be fixed by the State Government.

6. Liability of Candidates.- Candidates who are awarded scholarship shall have to undertake to bear for themselves payment of difference, if any, between the flying fees payable under the scholarship scheme, namely, Rs. 28 per hour and the



2



CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)



● Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
● Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

actual rate of flying fees payable to the club, at the rate fixed, from time to time, by the Civil Aviation Department.

7. Selection Committee.- The selection of candidates for award of the scholarship shall be made by a Committee consisting of ;

- (a) State Government's official representative in the Commerce and Industry Department;
- (b) State Government's official representative on the Managing Committee of the Flying Club;
- (c) One elected representative of the Managing Committee of the Flying Club;
- (d) Director General of Civil Aviation's representative i.e., Aerodrome Officer of the respective base;
- (e) Officer Commanding NCC Airwing of respective base;

The representative of the State Government in the Commerce and Industry Department on the Selection Committee shall be the Chairman of the Committee.

8. Select Lists.- For the present there shall be the following select lists prepared for each base/branch, namely .

- (a) One list of a selected female candidate with a waiting list of one;
- (b) One list of four selected male candidates with a waiting list of four;

Note.- (1) If female candidates are not available or are not found suitable the seats would be filled in by the male candidates;

(ii) One Scholarship shall be reserved for one male Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidate, if available;

(iii) Composition of selected list may be changed whenever the number of scholarships is changed according to Rule 5.

9. Approval of State Government.- The final list of candidates selected for the award of scholarships shall be subject to the approval by the State Government.

10. Physical fitness.- Candidates selected for the award of the scholarships shall satisfy the standards of Physical fitness prescribed in the Indian Aircraft Rules for the issue of 'Private Pilot Licence'. They shall accordingly undergo a medical examination by a Medical Officer approved by the Club and the fees for such examination shall be met by the candidates themselves.





CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)



● Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
● Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

11. Duration of Training.- The training would normally have to be completed between 1st April of the Year of selection and 31st March of next year. The period may, however, be extended by another year subject to the prior approval of the State Government. In no case shall the training period be extended beyond two years.

12. Mode of payment of Scholarships.- (1) The Flying Scholarships Fee @ Rs. 28 per hour for each candidate shall be paid directly to the Flying Club by the State Government on production of Flying Bills, etc. by the Club.

13. Selected candidates to be subjected to rule of the Club.- The selected candidates shall become Members/Cadets of the Club while undergoing training and shall observe all the rules and regulations laid down by the Club for such Members/Cadets. They shall pay their membership, medical examination, technical examination and such other fees as may be prescribed by the Flying Club.

14. Termination of Scholarship.- The candidates shall show satisfactory progress in their training. The scholarships may be withdrawn at any time and training of the candidates terminated for unsatisfactory progress and for such other reasons as the State Government may deem fit to assign. The orders of the State Government in this behalf shall be final.

15. Liability of candidate on withdrawal of scholarship.- Any scholarship holder whose scholarship has been withdrawn and his training terminated under Rule 14 above or who discontinues his training before completion of the same shall be liable to refund to the State Government the entire amount or any part thereof spent towards the training of the candidates under the scholarship rule. The order of the State Government passed in this behalf shall be final.

16. State Government not liable for any accident, etc.- The State Government of Madhya Pradesh shall not be held liable in respect of any accident or risk to the trainees, arising out of or connected with the training whether caused by the negligence of any person or otherwise, as the case may be.

17. Candidates to execute agreements.- Candidates, who are awarded scholarships, shall execute an agreement (security bond) binding themselves and two sureties jointly and severally to undertake payment to the difference in the flying fees to the Club under Rule 6 and to refund to Government the amount spent by the State Government towards the training under these rules in the event of the forfeiture of the scholarships or on their deciding to discontinue their training in the said Flying Club.





CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)



● Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
● Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

036

कार्यालय कलेक्टर (पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण) जिला इन्दौर

(कक्ष 303 सेटेलाईट भवन कलेक्ट्रेट इन्दौर)

Email :- bcwelfareindore@gmail.com

Ph.No. 0731-2369050

क्र./पोमैछा / निर्देश/2024/ 1316

इन्दौर दिनांक २७/06/2024

प्रति,

अधिष्ठाता/निर्देशक/प्राचार्य/कुलपति
समस्त शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय (समस्त)
.....
जिला इन्दौर

- विषय :- पिछडावर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति (एमपीटास) योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु नवीन/ नवीनीकर छात्रवृत्ति आवेदनों की स्वीकृति / वितरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश।
- संदर्भ :-
01. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-01/11/54-1 भोपाल दिनांक 12/12/2013
 02. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-01/2011/54-1 भोपाल दिनांक 21/09/2016
 03. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-01/2011/54-1 भोपाल दिनांक 05/07/2017
 04. आयुक्त, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक, 147/पीएमएस/2018-19/4842 भोपाल दिनांक 27/09/2017
 05. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-12-3/2015/54-1 भोपाल दिनांक 19/06/2018
 06. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/785/2018/54-1 भोपाल दिनांक 09/07/2018
 07. म.प्र. शासन, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-12-1/2017/54-1 भोपाल दिनांक 29/08/2019
 08. आयुक्त, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/ पीएमएस/पि.व./2019-20/3955 भोपाल दिनांक 30/08/2019
 09. आयुक्त, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक/ पीएमएस/पि.व./पोर्टल -06/2021-22/26 भोपाल दिनांक 03/01/2022
 10. आयुक्त, पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, भोपाल के पत्र पृ क्र/412/PMS/MPTAASC/प्रक्रिया/2023/1301-1302 भोपाल दिनांक 05/04/2024

--00--

उपरोक्त विषय एवं संदर्भित पत्रानुसार पिछडा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत एमपीटास पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु नवीन/ नवीनीकरण छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन पूर्व से प्रारंभ किया गया है। जिसमे एमपीटास पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदनों का संस्था स्तर पर परीक्षण पश्चात् ऑनलाइन वेरिफिकेशन एवं नोडल संस्था को अघोषण किये जाने एवं अन्य समस्त प्रक्रिया किये जाने हेतु संदर्भित पत्रों के तारतम्य में निम्न दिशा- निर्देश जारी किये जाते हैं -

01. विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन एमपीटास पोर्टल पर प्रोफाईल पंजीयन के पश्चात छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भरकर एवं आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करने के पश्चात्, छात्रवृत्ति आवेदन लॉक करके हार्ड कॉपी पर स्वयं की फोटो, मय प्रमाणिकरण व आवश्यक दस्तावेजों सहित नवीन/ नवीनीकरण आवेदन 02 प्रतिथियों में संस्था में जमा करवाना होगा। जिसे संस्था द्वारा परीक्षण करवाकर एवं सुरक्षित रखना अनिवार्य है। ताकि आवश्यकता होने पर विभाग द्वारा निरीक्षण / परीक्षण हेतु मांग किये जाने पर उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा।
02. संस्था प्राचार्य एवं छात्रवृत्ति प्रभारी के द्वारा विद्यार्थी से प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन फार्म एवं आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण कर एवं कमी पूर्ति करवाकर ही छात्रवृत्ति आवेदन फार्म संस्था के लॉग-इन से एमपीटास पोर्टल पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन किये जावेगे।





CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)



● Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
● Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

11 02 11

- इसके उपरांत संस्था द्वारा विद्यार्थी की संस्था में उपस्थिति का परिक्षण कर एमपीटास पोर्टल पर अपडेट की जावेगी ।
2. एमपीटास पोर्टल पर उपस्थिति सावधानी पूर्वक अपडेट करें अन्यथा गलत उपस्थिति दर्ज होने पर विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलने की जिम्मेदारी संस्था की रहेगी । (प्रारूप 01 (अ) एवं प्रारूप 02 (ब))
03. छात्रवृत्ति आवेदन में किसी प्रकार की कमी-पुर्ति नहीं होने की दशा में आवेदन sent to clarification करते हुए विद्यार्थी को लिखित रूप से अनिवार्यतः अवगत करायेगे ।
04. म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र/ एफ-12-1/2011/54-1 भोपाल 21/09/2016 के अनुसार पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि का भुगतान छात्र के आधार लिंक/ NPCI Active (DBT enabled) बैंक खाते में किया जाएगा। NPCI Active नहीं होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो सवेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी विद्यार्थी स्वयं की होगी ।
05. नवीनीकरण छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन हेतु विद्यार्थियों के पूर्व वर्ष के परीक्षा परिणाम संबंधित जानकारी एमपीटास पोर्टल पर संस्था द्वारा अपडेट की जाना अनिवार्य होगा अन्यथा विद्यार्थी के फॉर्म नहीं भरने की समस्त जिम्मेदारी संस्था की रहेगी ।
06. अशासकीय संस्था प्राचार्य द्वारा पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति नवीन/नवीनीकरण आवेदन फार्मों को संस्था स्तर पर वेरिफिकेशन करने के पश्चात आवेदन एमपीटास पोर्टल पर नोडल संस्था (जिला शासकीय महाविद्यालय जिससे अध्यनरत संस्था को मैप किया गया है) के लॉग-इन पर पहुच जाएगा, नोडल द्वारा online दस्तावेजों का परिक्षण कर आवेदन का फाइनल वेरिफिकेशन (अप्रूवल) किया जायेगा।
07. शासकीय संस्था वेरिफिकेशन एवं फाइनल वेरिफिकेशन (अप्रूवल) हेतु स्वयं नोडल संस्था होगी ।
08. अशासकीय संस्था प्राचार्य एवं छात्रवृत्ति प्रभारी के द्वारा verified आवेदनों के फाइनल वेरिफिकेशन (अप्रूवल), स्वीकृति एवं भुगतान हेतु निर्धारित प्रारूप में अनुशंसा पत्र एवं अन्य प्रारूप में जानकारी संस्था के पत्र के साथ नोडल एवं जिला कार्यालय को भेजा जाएगा तदुपरांत अनुशंसा पत्र के आधार पर फाइनल वेरिफिकेशन (अप्रूवल), स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
09. शासकीय नोडल संस्था, द्वारा अशासकीय महाविद्यालय से एमपीटास पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के online दस्तावेजों के परिक्षण में कमी होने पर संबंधित संस्था द्वारा पूर्ति करवाई जायेगी । पूर्ति नहीं होने पर आवेदन टेम्पररी रिजेक्ट किया जाएगा।
10. नोडल द्वारा ऑनलाइन आवेदन का फाइनल वेरिफिकेशन (अप्रूवल) पश्चात आवेदन जिला कार्यालय को शो होंगे जहाँ से परिक्षण उपरांत स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही की जावेगी
11. संस्था प्राचार्य द्वारा अपूर्ण एवं अपात्र छात्रवृत्ति आवेदन फार्म संस्था स्तर पर निरस्त किये जावेगें। अपूर्ण/अपात्र छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन फार्म नोडल अधिकारी को कदापि अग्रेषित न किये जावे। संस्था द्वारा निरस्त किये छात्रवृत्ति आवेदन फार्मों के संबंध में कारण सहित, विद्यार्थियों को सूचित किया जावे एवं ऐसे छात्रवृत्ति आवेदन फार्मों की एक सूची कारणों का उल्लेख सहित जिला कार्यालय को भेजी जावे। संस्था प्रमुख द्वारा अपूर्ण एवं अपात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन फार्म अग्रेषित करने एवं उनकी स्वीकृति एवं वितरण हो जाने पर संबंधित संस्था प्रमुख/प्राचार्य जवाबदार होंगें। (प्रारूप 02)
12. अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता विभाग के निर्धारित नियम निर्देश एवं पात्रता शर्तों के अनुरूप प्रदान की जायेगी।
13. शासन के आदेशानुसार इस सत्र से पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आय सीमा 3.00 लाख रुपये वार्षिक निर्धारित की गई है।
14. अन्य पिछड़ा वर्ग के केवल उन्ही विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी, जिनकी जाति म.प्र. के लिए घोषित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल है तथा इस संबंध में जाति प्रमाण-पत्र म.प्र. के किसी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो, स्वीकार किया जावे।
15. भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रदेश के अध्यनरत नियमानुसार पात्रता रखने वाले पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में विद्यार्थियों द्वारा देय पूरी फीस की प्रतिपूर्ति की जायेगी। राज्य के शासकीय महाविद्यालय/ शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित स्वचलित पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी। यदि कोई विद्यार्थी द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना या अन्य विनयी छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करता है, तो वह इस योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। संस्था प्रमुख यह सुनिश्चित करे।



निरंतर --03



CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)



● Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
● Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

|| 03 ||


18. ऐसे उम्मीदवार जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगे. उदाहरणार्थ बीकॉम के बाद बी.ए. करने लगे या एक विषय में एम.ए. करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम.ए. करने वाले छात्र इसके पात्र नहीं होंगे।
19. ऐसे उम्मीदवार, जो किसी एक व्यवसाय (प्रोफेशनल कोर्स) में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद किसी दूसरे व्यवसाय में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिये अध्ययन प्रारम्भ कर दे. जैसे बी.टी./बी.एड. के बाद एल.एल.बी. करने वाले विद्यार्थी इसके पात्र नहीं होंगे।
20. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की औसत 75 प्रतिशत वार्षिक उपस्थिति एवं वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की पुष्टि के पश्चात् ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जावेगी। छात्रवृत्ति स्वीकृत किए जाने के पूर्व वास्तविक विद्यार्थियों के प्रवेश एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थी संबंधित कोर्स की परीक्षा में अनिवार्य रूप से प्रवेश लेवें तथा विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन के उपरांत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जावेगा।
21. विद्यार्थियों के द्वारा मिथ्या कथन से छात्रवृत्ति प्राप्त करने पर उसकी छात्रवृत्ति तुरंत बंद कर दी जायेगी और भुगतान की गई छात्रवृत्ति की राशि राज्य शासन के निर्देश अनुसार वसूल की जाएगी। संबंधित विद्यार्थी का नाम काली सूची में दर्ज किया जावेगा और उसे किसी भी योजना में सदैव के लिए छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाएगा।
22. पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति नियम की कंडिका 10.3 अनुसार यदि कोई छात्र अध्ययन पाठ्यक्रम के विषय को बदलता है जिसके लिए मूलतः उसे छात्रवृत्ति प्रदान की गई थी अथवा राज्य शासन पूर्वानुमोदन के बिना अपनी अध्ययन संस्था को बदलता है तो उसे दी गई कोई भी छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकती है। संस्था प्रमुख शासन को ऐसे मामलों की सूचना देगा और छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान बंद कर देगा। पूर्व में भुगतान की गई राशि भी राज्य शासन के विवेकानुसार वसूल की जा सकेगी।
23. अशासकीय संस्थाओं (कॉलेज) / अशासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को शासकीय संस्थाओं (कॉलेज) के वित्तिक पाठ्यक्रम में ली जा रही है शिक्षण शुल्क सहित अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
24. मान्यता प्राप्त अशासकीय संस्थाओं में संचालित वीई पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित जे.ई.ई (JEE) मेन्स परीक्षा में पिछड़ा वर्ग के जिन विद्यार्थियों की मेरिट रैंक 1.50 लाख तक हो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
25. एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु राज्य शासन के मेडिकल महाविद्यालयों जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, में जिसमें प्रवेश हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर जिन पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया हो उन्हें पूर्ण शिक्षण शुल्क का भुगतान किया जायेगा।
शासकीय मेडिकल महाविद्यालय में शिक्षित विद्यार्थी (डॉक्टर) मैधावी छात्र योजना के समान दो वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का वॉण्ड राशि रुपये दस लाख के रूप में निष्पादित कर संबंधित प्राधिकारी के पास जमा करेंगे। निजी महाविद्यालय में यह अवधि पाँच वर्ष तथा वॉण्ड की राशि रुपये पच्चीस लाख होगी। (बॉर्ड की प्रति के साथ सूची जिला कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है)
26. जिला कार्यालय द्वारा एक बार छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति आवेदन फार्म निरस्त (अपूर्ण आवेदन/दस्तावेजों के अभाव में) किये जाने पर पुनः विचार नहीं किया जावेगा। छात्रवृत्ति संबंधी दस्तावेजों के अभाव में छात्रवृत्ति आवेदन फार्म निरस्त होने की जवाबदेही संस्था के प्राचार्य/निर्देशक की होगी।
27. समस्त शासकीय/अशासकीय संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित प्रोफार्म में एक पंजी का संधारण किया जाना अनिवार्य है, समय समय पर निरीक्षण के दौरान उक्त संधारित पंजी का अवलोकन करवाना सुनिश्चित करें। (संलग्न पंजी प्रारूप)

उपरोक्त दिशा निर्देशों के तहत वर्ष 2023-24 में पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति (एमपीटास पोर्टल) पर संस्था स्तर से आवेदनो को वेरिफिकेशन, नोडल अधिकारी (शासकीय महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय) स्तर से अंतिम वेरिफिकेशन कार्यवाही की जाना है। उपरोक्त कार्यवाही पश्चात जिला कार्यालय द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत एवं वितरण संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

अतः दिशा निर्देशों का कठोर से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न:- प्रारूप (01से 02)




कलेक्टर
जिला इन्दौर

निरंतर --03



CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)



● Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
● Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

11 04 11

पृ. क्र./पोमैछा / निर्देश/2024/ 1317
प्रतिलिपि :-

इन्दौर दिनांक 27/06/2024

01. अपर मुख्य सचिव, म.प्र शासन पिछडावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
02. आयुक्त, पिछडावर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सतपुडा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
03. कलेक्टर, जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
05. नोडल अधिकारी, (शासकीय महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय) समस्त जिला इन्दौर

कलेक्टर
जिला इन्दौर





CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)



● Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
● Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप योजना

1. पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप योजना हेतु आवश्यक दिशा निर्देश

1.1. योजना का विवरण

डिप्लोमा/स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने हेतु कुल नॉन-रिफंडेबल फीस की प्रतिपूर्ति करना ही इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।

1.2. पात्रता मापदंड

- यह योजना अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है।
- आवेदक का मध्य प्रदेश का स्थायी नागरिक होना अनिवार्य है।
- आवेदक का महाविद्यालय में प्रवेश लिया होना अनिवार्य है।
- आशासकिये संस्थान में छात्रवृत्ति के लिए आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम 6 लाख तक मरुन्य है।

1.3. आवश्यक शर्तें

- आवेदक को हितग्राही प्रोफाइल पंजीयन कराना अनिवार्य है।
 - प्रोफाइल पंजीयन के लिए जनजातीय कार्य विभाग की वेबसाइट <https://www.tribal.mp.gov.in> पर जायें।
- आवेदक का आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
- आवेदक के पास उसका आय प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास एडमिशन काउंसलिंग प्रक्रिया में प्राप्त आवेदन नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए।
- आवेदक के पास महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धित समस्त जानकारी होनी चाहिए (जैसे - महाविद्यालय का नाम, कोर्स का नाम, ब्रांच का नाम)।





CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)



• Phone: 0731-2362491 to 99, • Ext. No.: 407/578
• Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप योजना

1.4. प्रक्रिया

- संस्था में प्रवेश के पश्चात आवेदक पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन करते हैं।
- Nodal / प्रवेशित संस्था द्वारा विद्यार्थियों के प्रवेश की पुष्टि की जाती है।
- अधिकारी आवेदन एवं प्रवेश की जाँच करते हैं।
- आधार से लिंक बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है।
- वर्तमान स्थिति की जानकारी रजिस्टर्ड ईमेल एंव एसएमएस पर भेजी जाती है।

Note:


वर्तमान पोर्टल में सुविधा केवल साल 2018-19 में प्रवेशित अनुसूचित विद्यार्थियों के लिए है।
नवीनीकरण आवेदन हेतु मौजूदा एनआईसी पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन किये जायेंगे।

2. आवेदन की प्रक्रिया

2.1 जनजातीय कार्य विभाग की वेबसाइट पर जायें <https://www.tribal.mp.gov.in>



2.2 "ऑनलाइन सेवाएं" पर क्लिक करें।





CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)




- Phone: 0731-2362491 to 99, • Ext. No.: 407/578
- Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING



Policy Category	<u>INSTITUTIONAL SCHOLARSHIP POLICY</u>
Date of Implementation	15-07-1998
Date of Review	6/9/2019
Approved By	Head of the Institution
Signature of HOI	 Prof. Sheetal Saxena Officiating Principal Principal Choithram College of Nursing Manik Bagh Road, Indore-452014 (M.P.) India
Responsibility of Updating	Nodal Officer & IQAC





CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)



● Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
● Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

Choithram College of Nursing

Institutional Scholarship Policy

Aims and Objectives:

Aims:

1. To provide financial support to B.Sc Nursing students from low economic backgrounds.
2. To recognize and reward academic excellence among students.
3. To support students whose parents are employees of Choithram College of Nursing or Choithram Hospital.
4. To ensure that deserving students can pursue their nursing education without financial barriers.

Objectives:

1. To establish clear and transparent criteria for the awarding of scholarships.
2. To create a structured application and selection process.
3. To allocate scholarship funds in a fair and equitable manner.
4. To monitor and review the academic progress and financial status of scholarship recipients to ensure continued eligibility.

Institutional Scholarship Criteria:

1. Financial Need:

- Applicants must demonstrate low economic status through appropriate documentation.

Required documents include:

- Income certificate from a competent authority.
- Recent income tax returns of the family.





CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)



- Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
- Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

- Bank statements for the last six months.

2. Academic Excellence:

- Applicants must have a strong academic record.
Minimum academic requirements
- Consistent academic performance in all nursing courses.
- Applicants must provide:
- Official transcripts.
- Letters of recommendation from academic advisors or faculty members.

3. Parent Employment:

- Preference will be given to students whose parents are employees of Choithram College of Nursing or Choithram Hospital and Research Centre.

Required documentation:

- Employment verification letter from the HR department of Choithram College of Nursing or Choithram Hospital Choithram Hospital and Research Centre

Application Process:


Interested students must write and submit the application in favour of the Principal, Choithram College of Nursing followed by approval from Management. The academic advisory board puts the proposal which is followed by the approval from the Governing body

4. Notification:

- Selected recipients will be notified by a Scholarship sanction letter.

Renewal Criteria:

- Scholarships are awarded for one academic year and are renewable annually based on:
- Continued demonstration of financial need.
- Maintenance of the required academic excellence





CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)




- Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
- Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

Terms and Conditions:

- Any change in financial status or academic performance must be reported to the Scholarship Committee.
- The scholarship may be revoked if the recipient fails to meet the eligibility criteria or violates any college policies.

Note: This draft policy is subject to approval by the governing body of Choithram College of Nursing and may be amended as required.





CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)




- Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
- Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING



Policy Category	<u>INSTITUTIONAL SCHOLARSHIP POLICY</u>
Date of Implementation	15-07-1998
Date of Review	6/9/2019
Date of Revision	1 st Revision -8/2/2024
Approved By	Head of the Institution
Signature of HOI	 Principal Choithram College of Nursing Manik Bagh Road, Indore-452014 (M.P.) India
Responsibility of Updating	Nodal Officer & IQAC





CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)



● Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
● Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

Choithram College of Nursing Institutional Scholarship Policy

Aims and Objectives:

Aims:

1. To provide financial support to BSc Nursing students from low economic backgrounds.
2. To recognize and reward academic excellence among students.
3. To support students whose parents are employees of choithram consortium (ESU & HSU)
4. To ensure that deserving students can pursue their nursing education without financial barriers.

Objectives:

1. To establish clear and transparent criteria for the awarding of scholarships.
2. To create a structured application and selection process.
3. To allocate scholarship funds in a fair and equitable manner.
4. To monitor and review the academic progress and financial status of scholarship recipients to ensure continued eligibility.

Institutional Scholarship Criteria:

1. Financial Need:

- Applicants must demonstrate low economic status through appropriate documentation.

Required documents include:

- Income certificate from a competent authority.
- Recent income tax returns of the family.
- Bank statements for the last six months.

2. Academic Excellence:

- Applicants must have a strong academic record.

Minimum academic requirements:

- Consistent academic performance in all nursing courses.





CHOITHRAM COLLEGE OF NURSING

Accredited by NAAC, Affiliated to INC, MPNRC Bhopal, MPMSU Jabalpur
Choithram Hospital & Research Centre Manik Bagh Road, Indore 452014 (M.P.)



- Phone: 0731-2362491 to 99, ● Ext. No.: 407/578
- Principal: +91-731-4939909

E-mail : cconursing@yahoo.co.in, choithramoffice@gmail.com
Webiste : www.choithramnursing.com

- Applicants must provide:
- Result/Report card.
- Letters of recommendation from academic advisors or faculty members.

3. Parent Employment:

- Preference will be given to students whose parents are employees of Choithram Consortium (ESU & HSU)

Required documentation:

- Employment verification letter from the HR department.

Application Process:

Interested students must write and submit the application in favour of the Principal, Choithram College of Nursing followed by Approval from Management.

4. Notification:

- Selected recipients will be notified by a Scholarship sanction letter.

Renewal Criteria:

- Scholarships are awarded for one academic year and are renewable annually based on:
- Continued demonstration of financial need.
- Maintenance of the required academic excellence

Terms and Conditions:

- Any change in financial status or academic performance must be reported to the Scholarship Committee.
- The scholarship may be revoked if the recipient fails to meet the eligibility criteria or violates any college policies.

Note: This policy is subject to revision as per the discretion of the Governing body of Choithram College of Nursing.

